



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1294]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 1294]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

का.आ.1880(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि त्रिपुरा राज्य के सेपाहीजाला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 14.375 किमी से 38.950 किमी तक के भूखण्ड (अगरतला—उदयपुर सेक्शन) के निर्माण (पेल्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, सेपाहीजाला, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 14.375 किमी से 38.950 किमी तक (अगरतला-उदयपुर सेक्शन) भूमि के हिस्से में आ रही इमारत सहित या उसे छोड़कर अधिगृहीत की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वे संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेपाहीजाला	नेहाल चन्द्र नगर	गोकुल नगर	2826/पी	रायाती	चाय बागान	810
				2810/पी	रायाती	रास्ता	40
				2812/पी	रायाती	चाय बागान	1620
				2828/पी	रायाती	विति	40
				2816/पी	रायाती	विति	40
				2815/पी	रायाती	रास्ता	40
				2802/पी	रायाती	विति (टिल्ला)	40
				2803/पी	रायाती	बागान (टिल्ला)	81
				2800/पी	रायाती	बास्तु (टिल्ला)	40
				2801/पी	रायाती	विति (टिल्ला)	40
योग							2791

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/त्रिपुरा/एलए/2015-16/एनएच-44/एयूएस]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2016

S.O. 1880(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning with paved shoulders, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 44, in the stretch of the land from km 14.375 to km 38.950 (Agartala-Udaipur Section) in the District of Sepahijala in the State of Tripura, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under Sub-Section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent Authority, namely, the **Additional District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under Sub-Section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 14.375 to km 38.950 (Agartala-Udaipur section) of the National Highway No. 44 in the State of Tripura

S. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey Number	Type	Nature	Area in square meters
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sepahijala	Nehal Chandra Nagar	Gokulnagar	2826/p	Rayati	Tea Garden	810
				2810/p	Rayati	Path	40
				2812/p	Rayati	Tea Garden	1620
				2828/p	Rayati	Viti	40
				2816/p	Rayati	Viti	40
				2815/p	Rayati	Path	40
				2802/p	Rayati	Viti (Tilla)	40
				2803/p	Rayati	Bagan (Tilla)	81
				2800/p	Rayati	Bastu (Tilla)	40
				2801/p	Rayati	Viti (Tilla)	40
Total							2791

[F. No. NHIDCL/Tripura/LA/2015-16/NH-44/AUS]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.